



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

No. 43]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 31, 2007/माघ 11, 1928

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 31, 2007/MAGHA 11, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2007

सं. 11/2007-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 56(अ).— जबकि अभिहित प्राधिकारी ने, कोरिया आर०पी० और जर्मनी (जिसे इसमें इसके पश्चात संबद्ध देश भी कहा गया है) से उद्गमित या निर्यातित और आयातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के अध्याय 40 के अंतर्गत आने वाले एक्रीलोनाइट्राईल ब्यूटाडाइन रबड़ (जिसको इसमें इसके पश्चात एनबीआर भी कहा गया है) पर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, खंड 1, तारीख 6 जून, 2005 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 15/2/2004-डीजीएडी द्वारा मध्यावधि समीक्षा निष्कर्ष अधिसूचित किए थे।

और अभिहित प्राधिकारी के पूर्वोक्त मध्यावधि समीक्षा निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने संबद्ध देशों से उद्गमित या निर्यातित और आयातित एनबीआर पर सा०का०नि० 554 (अ), तारीख 1 सितम्बर, 2005 के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 1 सितम्बर, 2005 में प्रकाशित की अधिसूचना सं० 78/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 सितम्बर, 2005 द्वारा प्रतिपादन शुल्क अधिरोपित किया है।

और जबकि सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलेंट ट्रिब्यूनल (जिसे इसमें इसके पश्चात ट्रिब्यूनल भी कहा गया है) ने अपार इंडस्ट्रीज लि० तथा अन्य, की अपील नं० सी/935/05-एडी और सं० सी/68-69/06-एडी, द्वारा अपने अंतिम आदेश सं० 37-39/06-एडी तारीख 22 सितम्बर, 2006 में यह आदेश दिया था कि निर्यातक/आयातक द्वारा दायर की गई अपील मान्य है; भारत सरकार द्वारा उक्त विषय में जारी अधिसूचना सं० 78/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 सितम्बर, 2005 में बदलाव किया जायेगा ताकि कोरिया कुम्हो पैट्रोकेमिकलज से आयातित संबद्ध माल पर प्रतिपादन शुल्क अमरीकी डालर 38.73 प्रति मीट्रिक टन की दर से लगाया जाये और घरेलू इंडस्ट्रीज ने जो अपील की है उसको रद्द किया जाता है।

और जबकि अभिहित प्राधिकारी ने ट्रिब्यूनल के उपरोक्त आदेश को स्वीकार कर लिया है।

अतः अब केन्द्रीय सरकार सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (5) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपादन शुल्क का

निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 के नियम 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 78/2005-सीमाशुल्क, तारीख 1 सितम्बर, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम 1 के स्तंभ (9) में मौजूदा प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि “38.73” प्रतिस्थापित की जायेगी।

[फा. सं. 354/27/2005-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2007

No. 11/2007-CUSTOMS

G.S.R. 56(E). — Whereas in the matter of import of acrylonitrile butadiene rubber (hereinafter referred to as NBR), falling under Chapter 40 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, Korea RP and Germany (hereinafter referred to as the subject countries), the designated authority had notified its mid-term review findings published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, vide notification No. 15/2/2004-DGAD dated the 6th June, 2005.

And whereas on the basis of the aforesaid mid-term review findings of the designated authority, the Central Government has imposed anti-dumping duty on import of NBR, originating in, or exported from the subject countries, vide notification No. 78/2005-Customs, dated the 1st September, 2005 [G.S.R.554(E), dated the 1st September, 2005], published in part II, section 3, sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st September, 2005.

And whereas the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (hereinafter referred to as the Tribunal), in the matter of M/s. Apar Industries Ltd. and Others, in Appeals No.C/935/05-AD and No.C/68-69/06-AD, had vide its final order No. 37-39/06-AD dated the 22nd September, 2006, ordered that “the appeals filed by exporter/importer are allowed, subject to the direction that the impugned notification No.78/2005 dated 1st September, 2005, will be suitably amended by the Government of India by imposing the antidumping duty at the rate of US\$ 38.73 per MT on the subject goods imported from Korea Kumho Petrochemicals and the appeal filed by the domestic industry is dismissed”.

And whereas the designated authority has accepted the above order of the Tribunal. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (5) of section 9A of the said Customs Tariff Act and Rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 78/2005-Customs, dated the 1st September, 2005, namely :-

In the said notification, in the Table, against S.No.1, for the entry in column (9), the entry "38.73" shall be substituted.

[F. No. 354/27/2005-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2007

सं. 2/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 57(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4क की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 2/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 7 जनवरी, 2005 में, जो सा०का०नि० 10 (अ), तारीख 7 जनवरी, 2005 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित की गई थी, निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

- (1) क्रम सं. 1 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि में, प्रविष्टि 42.5% प्रतिस्थापित की जायेगी।
- (2) क्रम सं. 2 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि में, प्रविष्टि 42.5% प्रतिस्थापित की जायेगी।

2. यह अधिसूचना 1 फरवरी, 2007 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 332/48/2006-टीआरयू]

आर. श्रीराम, उप सचिव

टिप्पण :- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में, अधिसूचना सं० 2/2005-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 7 जनवरी, 2005, सा०का०नि० सं० 10 (अ) तारीख 7 जनवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम बार भारत के राजपत्र, असाधारण, में अधिसूचना सं. 4/2005- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (एनटी), तारीख 23 फरवरी, 2005, सा.का.नि. सं. 91 (अ) तारीख 23 फरवरी, 2005 द्वारा संशोधन किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st January, 2007

No. 2/2007-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 57(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 4A of Central Excise Act 1944 (1 of 1944), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 2/2005-Central Excise (N.T.), dated the 7th January, 2005, which was published in the Gazette of India Extraordinary, vide G.S.R. 10 (E), dated the 7th January, 2005, namely:-

In the said notification, in the Table,-

- (1) against Sl.No. 1, for the entry in column (4), the entry "42.5%" shall be substituted; and
- (2) against Sl.No. 2, for the entry in column (4), the entry "42.5%" shall be substituted.

2. This notification will come into force on the 1st day of February, 2007.

[F. No. 332/48/2006-TRU]

R. SRIRAM, Dy. Secy.

Note :— The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 2/2005-Central Excise (N.T.), dated the 7th January, 2005, G.S.R. 10 (E), dated the 7th January, 2005 and was last amended by notification No.4/2005-Central Excise (N.T.), dated the 23 February, 2005, vide G.S.R. 91 (E), dated the 23 February, 2005.